



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 36

जनवरी 8, 2021

संख्या 2

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

मद	2020	2020	2021	घट - बढ़	
	3 जनवरी	25 दिसंबर	1 जनवरी	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2242683	2751470	2743710	-7760	501027
1.1 संचलन में नोट	2242671	2751458	2743696	-7761	501026
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	12	13	2	1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542465	457719	474193	16474	-68273
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6925	5507	5954	447	-971
2.6 अन्य बैंक	34457	30068	29219	-849	-5238
2.7 अन्य	467985	967535	983204	15669	515219
3 अन्य देयताएं	1170393	1476078	1460301	-15777	289908
कुल देयताएं / आस्तियां	4465051	5688518	5696723	8204	1231671
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3097181	3982175	3988284	6109	891103
2 सोना	201456	270026	270554	529	69098
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	999124	1294151	1293888	-264	294764
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	130171	-	-	-	-130171
4.2 राज्य सरकारें	5304	3946	5569	1623	265
4.3 नाबार्ड	-	26133	25101	-1032	25101
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	18165	77318	77140	-178	58975
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	4309	25067	26106	1039	21797
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	1964	1964	1964	0	0
7 अन्य आस्तियां	7377	7739	8117	379	740

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	1 जनवरी 2021 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4276976	585324	4644	4483	674820	107517	965877	124167
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3957808	541642	4471	4168	623993	99429	885103	113693
1.2 स्वर्ण	270554	37026	529	315	40027	6448	69098	8969
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11035	1510	-73	-	235	78	643	63
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	37578	5145	-284	-	10565	1562	11033	1443

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

1 जनवरी, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹444745 करोड़	2020													2021
	19 दिसंबर	20 दिसंबर	21 दिसंबर	22 दिसंबर	23 दिसंबर	24 दिसंबर	25 दिसंबर	26 दिसंबर	27 दिसंबर	28 दिसंबर	29 दिसंबर	30 दिसंबर	31 दिसंबर	1 जनवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	453368	451933	433904	431718	431746	466857	457719	454583	450672	433194	433306	433549	433408	474193
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.9	101.6	97.6	97.1	97.1	105.0	102.9	102.2	101.3	97.4	97.4	97.5	97.5	106.6

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	18 दिसंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	207296	1189	8535	-27053	33578	21933
1.2 बैंकों से उधार	44609	740	-13336	-19392	-27736	-21514
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17811	568	-3008	1648	2560	5680
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14482560	-100528	435109	915068	1192608	1473679
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.7	3.5	6.7	10.1	11.3
2.1.1 मांग	1566656	-25435	-156487	-50347	164888	211856
2.1.2 मीयादी	12915904	-75092	591596	965415	1027720	1261824
2.2 उधारियां	252045	-592	-59253	-57394	-38496	-66956
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	609220	6803	16306	5544	22861	49268
3 रिज़र्व बैंक से उधार	77098	1	-154942	-208525	-152243	51352
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	573104	10911	3020	-50343	92271	-70500
4.1 उपलब्ध नकदी	84841	-602	6239	-2419	11897	3725
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	488262	11513	-3219	-47924	80374	-74226
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	150630	-3074	-76354	-4771	-69734	3936
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9907	2281	-11367	-10366	-13205	-10978
5.3 बैंकों को अग्रिम	20885	-720	-5529	-9647	-7396	-3221
5.4 अन्य आस्तियां	28630	-355	-8071	-25401	4900	-6178
6 निवेश	4412246	-76762	343171	664897	376317	688019
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.7	10.1	17.7	11.2	18.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4410487	-77077	333896	671791	366340	697589
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1759	315	9275	-6894	9977	-9570
7 बैंक ऋण	10549549	51861	175721	178688	659808	602105
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	1.8	1.7	7.1	6.1
7 क.1 खाद्य ऋण	93152	-2760	43533	41388	7802	8009
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10456396	54621	132188	137300	652006	594096
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10378101	49288	217326	228592	667534	638781
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	22586	-401	-1025	-3072	5881	-2612
7 ख.3 भुनाए गए	101037	1423	-29714	-44646	-9449	-27545
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	17524	419	-2298	-2934	-343	-4766
7 ख.5 भुनाए गए	30301	1132	-8568	747	-3815	-1753

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2020	2020				2021
	3 जनवरी	4 दिसंबर	11 दिसंबर	18 दिसंबर	25 दिसंबर	1 जनवरी
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.71	3.86	..	3.96	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	75.97	71.99	..	72.84	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	41.55	12.49	..	19.53	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.61	30.78	..	30.47	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	62.63	73.03	..	72.66	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.45/9.40	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.50/7.95	6.60/7.10	6.60/7.10	6.55/7.10	6.55/7.10	6.55/7.05
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.20/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.05	3.07	3.12	3.20	3.24	3.22
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	3.05	3.11	3.13	3.11	3.08
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.22	3.32	3.35	3.35	3.35	3.34
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.30	3.39	3.45	3.45	3.46	3.46
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.73	5.83	5.91	5.92	5.91	5.91
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.69	73.74	73.59	73.51	73.58	73.03
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	80.05	89.64	89.47	90.03	89.81	89.23
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.68	3.58	3.47	3.55	3.84	3.99
3-माह	3.93	3.58	3.51	3.59	3.75	4.00
6-माह	4.27	4.33	4.24	4.38	4.35	4.52

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/यूरोलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	18 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18059064	-94222	-0.5	630911	4.1	1259101	7.5	1513283	10.4	1996086	12.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2681605	3753	0.1	128391	6.3	331857	14.1	229606	11.8	501004	23.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1688686	-24946	-1.5	-152556	-9.4	-49006	-2.8	171356	13.2	214730	14.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13646985	-72939	-0.5	652839	5.6	972969	7.7	1103415	9.8	1272542	10.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41788	-90	-0.2	2237	7.0	3281	8.5	8906	35.5	7810	23.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5635878	-189071	-3.2	531193	12.1	675516	13.6	685025	16.2	716195	14.6
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	980473	-111523		177970		-11719		296915		552	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4655405	-77548	-1.6	353223	9.8	687235	17.3	388110	10.9	715643	18.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11207338	52649	0.5	216923	2.1	168693	1.5	722599	7.3	607696	5.7
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	11205	329		-8661		-1961		-2579		4503	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11196133	52320	0.5	225584	2.2	170654	1.5	725178	7.3	603193	5.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4512336	12563	0.3	360498	11.7	711300	18.7	551666	19.2	1080997	31.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26618	-	-	291	1.1	271	1.0	392	1.5	440	1.7
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रुतर देयताएं	3026427	3323106	-29637	-0.9	477993	19.6	296679	9.8	446399	18.1	409242	14.0
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयताएं	1378342	1478577	10762	0.7	64301	6.1	100235	7.3	72752	6.9	355481	31.7

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		समाह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2020		2021	
	31 मार्च	1 जनवरी	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3322090	7985	0.2	115938	4.2	292383	9.7	315562	12.3	435671	15.1
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2770315	-7761	-0.3	132139	6.2	323003	13.2	240091	11.8	501405	22.1
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	543888	509365	16072	3.3	-18122	-3.0	-34523	-6.3	67594	13.1	-74482	-12.8
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42410	-326	-0.8	1921	6.1	3903	10.1	7877	30.5	8747	26.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1102053	90411		333258		109861		257475		-33156	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1096526	88789		329474		106785		255999		-33421	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-618721	-105231		-557913		-417828		-379996		-213659	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-630217	-105522		-548823		-416158		-378459		-218882	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4269569	6570	0.2	449832	15.8	679167	18.9	534612	19.3	971151	29.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26618			351	1.4	271	1.0	440	1.7	380	1.4
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयता	1378342	1457429	-16235	-1.1	109590	10.4	79087	5.7	96969	9.1	289044	24.7

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
28 दिसंबर 2020	-	650376	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-20	-650389
29 दिसंबर 2020	-	669600	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-551	-669907
30 दिसंबर 2020	-	669284	-	-	11	473	-	-	-	-	-	-	-	-668800
31 दिसंबर 2020	-	737314	-	-	0	-40	-	10000	10000	-	-	-	-	-737354
1 जनवरी 2021	-	733305	-	-	43	-399	-	-	-	-	-	-	-	-733661
2 जनवरी 2021	-	42849	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-42818
3 जनवरी 2021	-	1294	-	-	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-790

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	147.2	148.6	158.4	158.9	0.3	6.9	6.9
1.1 ग्रामीण	148.3	149.9	159.8	160.7	0.6	7.3	7.2
1.2 शहरी	146.0	147.0	156.7	156.9	0.1	6.5	6.7
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	119.5	119.9	0.3	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	122.0	122.3	123.8	124.2	0.3	3.2	1.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	145.5	147.2	152.4	151.2	- 0.8	10.0	2.7
3.2 ईंधन और बिजली	102.3	101.3	91.1	91.3	0.2	- 8.2	- 9.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	117.8	120.3	121.3	0.8	2.3	3.0

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
4 दिसंबर 2020	69440	6299	3.08 - 4.63
18 दिसंबर 2020	68770	8003	3.08 - 4.44

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
15 दिसंबर 2020	390613	102308	2.65 - 12.61
31 दिसंबर 2020	365185	87488	3.06 - 12.73

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	3 जनवरी 2020	25 दिसंबर 2020	1 जनवरी 2021
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	22786	16769	18634
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4528	972	4651
3 सीबीएलओ#	411821	426080	648949
4 बाजार रेपो	299793	295246	376407
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	1822	1055	1090

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

1 जनवरी 2021 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2499	15783	90891	225506
182-दिवसीय	101471	27744	4271	201339
364-दिवसीय	150120	122449	16302	416243
सीएमबी				

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (1 जनवरी 2021 तक)	2019 - 20 (3 जनवरी 2020 तक)	2019-20	2020 - 21 (1 जनवरी 2021 तक)	2019 - 20 (3 जनवरी 2020 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1049975	634000	710000	851910	471972	473972
2. राज्य सरकारें	555852	387376	634521	455579	278198	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।